



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 वैशाख 1933 (श0)  
(सं0 पटना 178) पटना, बुधवार, 4 मई 2011

---

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

5 जनवरी 2011

सं0 सं0का0-1/विरोधी दल नेता(वि०स०)-5-3/2010-03—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 12/प०(क)-1014/10-सा०प्र०-12724, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप-सचिव एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव, कोटि क्रमांक-783/08 जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, को श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल, बिहार विधान-सभा, पटना के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में श्री ओम प्रकाश यादव को श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय नेता विरोधी दल, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-1169, दिनांक 02 मार्च 2001 के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुरूप इस विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री ओम प्रकाश यादव, आप्त सचिव के पद पर तब तक बने रहेंगे, जबतक माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल, बिहार विधान-सभा में अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच भी आप्त सचिव के रूप में इसकी सेवा बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
फणीन्द्र भूषण पाठक,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 178-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>